



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 410] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 1977/पौष 6, 1899

No. 410] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 1977/PAUSA 6, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate pages is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December 1977

G.S.R. 775(E)—Whereas certain draft rules, further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published at pages 2745-2746 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27th November, 1976 under the notification of the Government of India in the late Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) No G.S.R. 900(E), dated the 27th November, 1976, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of 45 days from the date on which copies of the said notification were made available to the public,

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 27th November, 1976,

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 23 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely,—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Third Amendment) Rules, 1977

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Prevention of Food Adulteration Rule, 1955, after rule 22A, the following rule shall be inserted, namely —

"22B. Quantity of sample sent to be considered as sufficient:—

Notwithstanding anything contained in rule 22, the quantity of sample sent for analysis shall be considered as sufficient unless the public analyst or the Director reports to the contrary"

[No P. 15014/2/76-PH(F&N)]

N. N. VOHRA, Jt. Secy

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1977

सा० का० नि० 775(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 27 नवम्बर, 1976 के पृष्ठ पर भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना स० सा० का० नि० 900(अ), तारीख 27 नवम्बर, 1976 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उसमें प्रभावित होने की सम्भावना रही हो, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की प्रति जनता को उपलब्ध कराई गई हो, पैनालीम दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ,

और उक्त राजपत्र की प्रति जनता को 27 नवम्बर, 1976 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त नियमों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है .

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (तृतीय संशोधन) नियम 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में, नियम 22क के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"22क. भेज गए नमूनों की मात्रा का पर्याप्त माना जाता :—

नियम 22 में किसी बात के होते हुए भी, विश्लेषण के लिए भेजे गए नमूने की मात्रा, जब तक लोक विश्लेषक या निदेशक विपरीत रिपोर्ट न दे, पर्याप्त समझी जाएगी ।"

[सं० पी० 15014/2/76-पी०एच० (एफ० एण्ड एन०)]

एम० एन० वोहरा, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977